शंकरलाल रामपाल डाई-केम लिमिटेड

SHANKAR LAL RAMPAL DYE-CHEM LTD.

Regd. Office Address: S.G. 2730, SUWANA,BHILWARA-311011 (RAJ)
Corresponding Address: Near Kamal Ka Kuwa, Bhilwara 311001, Rajasthan
CIN:- L24114RJ2005PLC021340, GSTIN-08AAKCS4423Q1ZQ, 27AAKCS4423Q1ZQ

Phone: +91-1482-220062, Email: info@srdyechem.com, Website: www.srdyechem.com



TO **DATE:-16/02/2023**

THE MANAGER,
LISTING & COMPLIANCE DEPARTMENT,
BSE LIMITED
PHIROZE JEEJEEBHOY TOWER, DALAL STREET
MUMBAI-400001

SUBJECT: Intimation and Extract of publication of financial results in Newspaper; both English and Vernacular Language (Hindi).

Name of Co.- Shankar Lal Rampal Dye-Chem Limited

Scrip Code- 542232 Symbol- SRD ISIN- INE01NE01012

Dear Sir/Ma'am,

In accordance with Regulation 47 and Regulation 30 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation 2015, amended from time to time and in reference; please find enclosed Newspaper's Extract of 15th February, 2023 (Business Remedy-Hindi (All Edition)) and 15th February, 2023 (Financial express-English) of publication of Financial Results of quarter ending on 31st December, 2022.

This is for your information and records. Same is disseminated on our website www.srdyechem.com.

THANKING YOU,

FOR SHANKAR LAL RAMPAL DYE-CHEM LIMITED

Aditi Babel Company Secretary & Compliance Officer Membership No.-A55675

.

SHANKAR LAL RAMPAL DYE-CHEM LIMITED

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED 31st December, 2022. (Rs. In lakhs except EPS)

_		_				to: III Idniio	except Ero
SI. No.	Particulars		Quarter Ended		Nine Mont	Financial Year Ended	
		31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022
1.	Total Revenue from Operations	7765.26	7499.67	10912.98	23613.92	21938.05	30332.59
2.	Net Profit / (Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	161.07	717.48	1684.23	1705.26	2741.14	3580.25
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	161.07	717.48	1684.23	1705.26	2741.14	3580.25
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	120.61	536.91	1277.08	1484.22	2029.64	2706.44
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	120.61	536,91	1277.08	1484.22	2029.64	2706.44
6.	Paid up Equity Share Capital	6396.68	6396.68	2132.23	6396.68	2132.23	2132.23
7.	Other Equity as shown in the Balance Sheet of previous year except revaluation reserve.					10	5545.11
8.	Earnings Per Share (not annualized) (of Rs. 10 /- each) Before Extraordinary items & After Extraordinary items (Basic & Diluted as Adjusted(Bonus Issue: Ind AS 33)	0.19	0.84	5.99	2.32	9.52	4.23

- 1. The above Standalone financial results for the guarter ended 31st December, 2022, were reviewed by the Audit Committee and thereafter were approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on 14th February, 2023.
- 2. This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other Indian Generally Accepted Accounting Practices and Policies to the extent applicable.
- 3. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Quarterly Financial Results is available on the websites of Stock Exchange at www.bseindia.com and the Company's website at www.srdyechem.com.

4. The previous period figures have been Re-grouped / Re-classified/Restated, wherever necessary, to confirm with the current period presentation. For and By Order of Board

Date: 14/02/2023 Place: Bhilwara (Rajasthan)

Rampal Inani Chairman & Managing Director DIN-00480021

Regd. Office Address: S.G. 2730, SUWANA, BHILWARA-311011 (RAJ) CIN: - L24114RJ2005PLC021340, Phone: +91-1482-220062, Email: info@srdyechem.com, Website: www.srdyechem.com

MAX HEIGHTS INFRASTRUCTURE LIMITED SD-65, Tower Apartment, Pitampura, New Delhi-110034, Tel: +91-11- 27314646

CIN: L67120DL1981PLC179487 Website: www.maxheights.com; Email: cs@maxheights.com EXTRACT OF CONSOLIDATED & STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER 2022

		Consolidated				Standalone				
S. No	Particulars	For Quar	ter ended	Year to date (Current Year)	For the Year ended	For Quar	ter ended	Year to date (Current Year)	For the Year ended	
NO.		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.03.2022	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.03.2022	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
1	Total Income from Operations	137.00	292.32	465.60	641,21	136.80	292.29	464.91	640.76	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	17.98	125.02	46.44	(125.52)	18.67	136.02	47.75	182.20	
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	17.98	125.02	46.44	(125.52)	18.67	136.02	47.75	182.20	
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	17.98	125.02	46,44	(150.23)	18.67	136.02	47.75	157.45	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax)] and Other Comprehensive Income (after tax)]	18.67	136.02	47.75	157.45	18.67	136.02	47.75	157.45	
6	Equity Share Capital	1,560.92	1,560.92	1,560.92	1,560.92	1,560.92	1,560.92	1,560.92	1,560.92	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	0.00	0.00	0.00	1,688.03	0.00	0.00	0.00	1,688.03	
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) 1. Basic 2. Diluted	0.11 0.11	0.87 0.87	0.31 0.31	1.01	0.11	0.87 0.87	0.31 0.31	1.01 1.01	

NOTES:

- The above is an extract of the detailed format of Consolidated & Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter ended on 31st December, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Regulations, 2015. The full format of the Consolidated & Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter ended 31st December, 2022 are available on the websites of the Stock Exchange viz. www.bseindia.com and the Company's website viz. www.maxheights.com.
- The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held on February 14, 2023 and subjected to Limited Review by Statutory Auditors, pursuant to Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended.
- The Company operates in three segments i.e. Real Estate, Financing and Shares within one geographical region i.e. India.
- The figures of the previous period/year have been regrouped/recast, wherever considered necessary, to conform to current year's classification. The Limited review as required under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been completed and Related
- Report does not have any impact on above Results and Notes for the Quarter ended 31/12/2022 which needs to be explained and the Auditors have expressed their unqualified opinion.

For MAX HEIGHTS INFRASTRUCTURE LIMITED

Place: New Delhi Date: 14.02.2023

Naveen Narang Managing Director DIN: 00095708

NAGPUR POWER AND INDUSTRIES

CIN-L40100MH1996PLC104361 Registered Office: Nirmal, 20th floor, Nariman Point, Mumbai 400 021

Tel # +91 22 2202 3055/66, Email: npil_investor@khandelwalindia.com, Website:-www.nagpurpowerind.com **EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS**

FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED 31ST DECEMBER, 2022

	Amount in Lakhs except earning per share									
		STANDALO	INE		ONSOLIDAT					
PARTICULARS	Quarter ended 31.12.2022 (Unaudited)		Quarter ended 31.12.2021 (Unaudited)	Quarter ended 31.12.2022 (Unaudited)	Nine Month ended 31.12.2022 (Unaudited)	Quarter ended 31.12.2021 (Unaudited)				
Total income from operations (net)	89.27	80.69	292.78	1,036.44	3,446.77	1,199.12				
Net Profit /(Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	32.41	(97.62)	226.42	(61.88)	(32.63)	205.89				
Net Profit/(Loss) for the period (before tax and after Exceptional items)	32.41	(97.62)	226.42	(61.88)	(32.63)	205.89				
Net Profit/(Loss) for the period (after tax and after Exceptional items)	32.41	(97.62)	226.42	(68.42)	(84.31)	197.58				
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	41.96	(52.70)	229.85	(102.51)	(39.39)	201.01				
Paid-up equity share capital (Face Value of Rs. 10/- per share)	1,309.55	1,309.55	1,309.55	1,309.55	1,309.55	1,309.55				
Reserves and Surplus (excluding Revaluation Reserve) as shown in the audited balance sheet of previous year	-	-	-	-	-	-				
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)										
Basic :	0.25	0.75	1.73	(0.52)	(0.64)	1.51				
Diluted:	0.25	0.75	1.73	(0.52)	(0.64)	1.51				

1 The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited Financial Results for the Quarter and Half Year ended 31st December, 2022 is available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the Company's website

For Nagpur Power and Industries Limited

Place: Mumbai Date: 13th February, 2023

Gautam Khandelwal Executive Chairman (DIN: 00270717)

INFORMED TECHNOLOGIES INDIA LIMITED

CIN-L99999MH1958PLC011001

Registered Office: Nirmal, 20th floor, Nariman Point, Mumbai 400 021, Tel # +91 22 2202 3055/66 Fax# +91 22 2204 3162 Email: itil investor@informed-tech.com Website: www.informed-tech.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE ALLARTER AND NINE MANTH ENDER 34ST RECEMBER 2022

FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED 31ST DECEMBER, 2022									
			Amou	nt in Lakhs e	xcept earnir	ng per share			
		TANDALON	IE		ONSOLIDAT	ΓED			
PARTICULARS	Quarter ended 31.12.2022 (Unaudited)	Nine Month ended 31.12.2022 (Unaudited)	Quarter ended 31.12.2021 (Unaudited)	Quarter ended 31.12.2022 (Unaudited)	Nine Month ended 31.12.2022 (Unaudited)	Quarter ended 31.12.2021 (Unaudited)			
Total income from operations (net)	130.95	288.60	98.47	130.95	288.60	98.47			
Net Profit /(Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	56.12	(28.02)	35.68	56.12	(28.03)	35.68			
Net Profit/(Loss) for the period (before tax and after Exceptional items)	56.12	(28.02)	35.68	60.47	14.67	44.44			
Net Profit/(Loss) for the period (after tax and after Exceptional items)	47.52	(28.50)	27.05	51.87	14.19	35.81			
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	74.44	43.87	(4.45)	78.79	86.56	4.31			
Paid-up equity share capital (Face Value of Rs. 10/- per share)	416.91	416.91	416.91	416.91	416.91	416.91			
Reserves and Surplus (excluding Revaluation Reserve) as shown in the audited balance sheet of previous year	-	-	-		-	-			

Note: 1 The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited Financial Results for the Quarter and Nine month ended 31st December, 2022 is available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com)

1.14

1.14

(0.68)

(0.68)

0.65

0.65

and on the Company's website

Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)

Basic:

Diluted:

Place: Mumbal

Date: 13th February, 2023

Gautam Khandelwal Non-Executive Chairman

1.24

1.24

0.34

0.34

FINANCIAL EXPRESS

Booking

Advertisement

For

Place: Bangalore

Date: 14.02.2023

0120-66512

SHARP INDIA LIMITED

Registered Office: Gat No. 686/4, Koregoan Bhima, Taluka Shirur, Dist: Pune - 412216 Phone No.: 02137 - 670000/01/02 Fax No.: 02137 - 252453 Website: www.sharpindialimited.com CIN: L36759MH1985PLC036759

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended December 31, 2022

₹ in lakhs

Sr. No.			Nine Months ended December 31, 2022	Corresponding quarter ended December 31, 2021	Year ended March 31, 2022	
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
1	Total Income from Operations	· - 0	2.87	5.39	25.33	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax exceptional and/or extraordinary Items)	(403.56)	(1,171.92)	(372.52)	(1,470.82)	
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and /or extraordinary Items)	(403.56)	(1,171.92)	(372.5 2)	(1,470.82)	
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and /or extraordinary Items)	(403.56)	(1,171.92)	(372.52)	(1,470.82)	
5	Total comprehensive income for the period (comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income(after tax))	(403.56)	(1,171.92)	(372.52)	(1,470.82)	
6	Equity Share Capital	2,594.40	2,594.40	2,594.40	2,594.40	
7	Reserves(excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the	*	*	*	*	
	previous year					
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) (Not annualized)					
	1) Basic	(1.56)	(4.52)	(1.44)	(5.67)	
	2) Diluted	(1.56)	(4.52)	(1.44)	(5.67)	

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange website-www.bseindia.com and website of the company - www.sharpindialimited.com

> For Sharp India Limited Masahiko Nakagawasai **Managing Director**

Place: Pune Date: February 14, 2023

B&B TRIPLEWALL CONTAINERS LIMITED

CIN: L21015KA2011PLC060106

Reg Off: Sy. No. 263/2/3, Marsur Madiwal Village, Kasaba Hobli, Anekal Taluk, Bangalore – 562106 Website: www.boxandboard.in | E-mail ID.: info@boxandboard.in | Cont.: 8870213555 Extract of Financial Results for the Quarter ended on 31st December, 2022 Extract of Financial Results for the Quarter ended on 31st December, 2022

(Rs. in Lacs, except as stated otherwise)

	Consolidated Financial Result					
	Quarter ending	Quarter ended	Year ending	Quarter ending	Quarter ended	Year ending
Particulars -	31st Dec,2022	31st Dec,2021	31st Mar,2022	31st Dec,2022	31st Dec,2021	31st Mar,2022
	(Unaudited)	(Unaudited)	(audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(audited)
Total income from operations (net)	8567.94	7979.77	31333.50	8567.94	7979.77	31333.50
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or		-			-	
Extraordinary items)Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,	621.34	788.53	3258.67	621.28	788.53	3258.67
Exceptional and/or Extraordinary items)						
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or						
Extraordinary items)Net Profit / (Loss) for the period before tax (after						
Exceptional and/or Extraordinary items)						
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or	468.10	590.49	2444.01	468.19	590,49	2444.01
Extraordinary items)	400.10	390.49	2444.01	400.19	390.49	2444.01
Total comprehensive income for the period (comprising profit for the peri-	468.10	590.49	2442.43	468.19	590,49	2442.43
od after tax and other comprehensive income after tax	408.10	390.49	2442.43	408.19	390.49	2442.43
Equity Share Capital	2051.12	2051.12	2051.12	2051.12	2051.12	2051.12
Other equity						
Earnings Per Share (not annualised) (face value of 10/- each)	2.28	2.88	11.91	2.28	2.88	11.91
Basic:	2.28	2.88	11.91	2.28	2.88	11.91
Diluted:				-	-	
Debt Service Coverage ratio	0.42	1.06	0.59	0.40	1.06	0.59
Interest Service Coverage ratio	6.64	8.30	9.63	6.64	8.30	9.63
Debt to Equity Ratio	0.97	0.51	0.66	1.02	0.51	0.66
				DI UT.	95	

Note: - 1. The above is the extract of detail financial Result submitted to NSE under regulation 33 of SEBI (LODR) Reg, 2015. The full financial Result along with notes is available on Company website www.boxandboard.in, or NSE website www.nseindia.in and on BSE website www.bseindia.com

2. Financial Result have been prepared accordance to Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 prescribed under section 133 of Companies Act, 2013.

The figures for the previous period have been restated, regrouped and reclassified wherever required to company with the requirement of Ind AS.

By Order of the Board of Directors For, B&B Triplewall Containers Limited

Nine Months Ended

Manish Kumar Gupta, Managing Director

JORABAT SHILLONG EXPRESSWAY LIMITED

Registered Office: The IL&FS Financial Center, Plot C-22, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400051, India

Tel: 022-26533333 Fax: 022-26523979 Website: https://www.itnlindia.com/JSEL-SPV.aspx CIN:- U45203MH2010PLC204456

Extract of Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2022

(Rs. in Lakhs) Year Ended

	Particulars	31, 2022 (Unaudited)	30, 2022 (Unaudited)	31, 2021 (Unaudited)	31, 2022 (Unaudited)	31, 2021 (Unaudited)	31, 2022 (Audited)
1	Total Income from Operations	3,169	2,439	2,265	8,623	7,545	10,921
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,808	798	1,647	6,137	(2,801)	(132)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,808	798	1,647	6,137	(2,801)	(132)
4	Net Profit / (Loss) for the year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,808	798	1,647	6,137	(2,801)	(132)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	2,808	798	1,647	6,137	(2,801)	(132)
6	Paid-up equity share capital (face value - ₹10 per share)	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400
7	Reserves (excluding revaluation Reserve)	(16,710)	(19,518)	(25,567)	(16,710)	(25,567)	(22,847)
8	Securities Premium Amount	-		-	-	-	-
9	Net worth	(8,310)	(11,118)	(17,167)	(8,310)	(17,167)	(14,447)
10	Paid-up Debt Capital	1,33,169	1,33,169	1,33,169	1,33,169	1,33,169	1,33,169
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	2 - 1	-	-	- 0	
12	Debt/Equity Ratio (number of times)	(16.02)	(11.98)	(7.76)	(16.02)	(7.76)	(9.22)
13	Earnings per share (of ₹ 10/- each): (* Not annualised)		9 9				
	(a) Basic	3.34*	0.95*	1.96*	7.31*	-3.33*	(0.16)
	(b) Diluted	3.34*	0.95*	1.96*	7.31*	-3.33*	(0.16)
14	Capital Redemption Reserve	-		-	-	-	
15	Debenture Redemption Reserve	8,162	8,162	8,162	8,162	8,162	8,162
16	Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (number of times)	-	-	-	-	-	
17	Interest Service Coverage Ratio (ISCR) (number of times)	-	1 1	-	- 1	- 8	-

1 The above is an extract of the detailed format of quarterly results filed with Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The full

format of the quarter ended financials results are available on the websites of the National Stock Exchange (NSE) -www.nseindia.com and the Company's - www.itnlindia.com/JSEL-SPV.aspx 2 For the items referred in regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange (NSE) and can be accessed on the (www.nseindia.com) and on the Company's website - www.itnlindia.com/JSEL-SPV.aspx

3 The above results are in compliance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified by the Ministry of Corporate Affairs, read with SEBI Circular No. CIR/IMD/DFI/69/2016 dated August 10, 2016 4 The above financial results of the Company were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on February 14, 2023 and has been reviewed by the

Statutory Auditor of the Company

For and on behalf of the Board

Place: Mumbai Date: February 14, 2023 Vijay Kini

Non-Executive Director

Rs in Crores except EPS

DIN: 06612768



Quarter Ended

JINDAL POLY FILMS LIMITED Regd. Office: 19th K.M., Hapur Bulandshahr Road, P.O. Gulaothi, Bulandshahr (U.P.) - 203408

Corporate Office: Plot No. 12, Local Shopping Complex, Sector B-1, Vasant Kunj, New Delhi-110070

Unaudited Financial Results For the Quarter and nine months ended December 31, 2022 Rs in Crores except EPS

Standalone Consolidated Nine Months Ended Quarter Ended Nine Months Ended **Particulars** 31.12.2022 30.09.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 30.09.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) Inaudited) (Unaudited) (Unaudited) 3,893.26 4.156.66 Total Income from Operations 134.00 642.69 1,357.25 2,286.22 496.97 Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 50.71 216.96 305.81

886.65 1,414,40 .359.18 4,145.12 694.57 983.92 (127.71)198.28 304.75 197.95 495.08 1,017.95 Net Profit/ (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or 50.71 1,343.30 305.81 1,820.90 1,019.39 (129.22)304.75 Extraordinary items) and before non-controlling interest and share of profit from associate, attributable to Equity Holders of the parent (96.66)485.46 217.98 703.91 704.20 Net Profit / (Loss) for the period after Tax, non-controlling interest and share of 40.00 1,340.52 218.71 1,699.37 705.14 profit from associate, attributable to Equity Holders of the parent 218.97 (95.41)485.25 218.27 705.48 703.11 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the 40.10 1,338.91 1,698.39 705.96 period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)) attributable to Equity Holders of the parent 43.79 43.79 43.79 43.79 43.79 Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs 10/- each) 43.79 43.79 43.79 43.79 43.79 Other Equity (excluding revaluation reserve) 110.87 49.63 Basic & Diluted Earnings / (Loss) Per Share 306.15 161.04 160.76 160.83 9.14 49.95 388.11 (22.08)

Notes

- 1 Financial Results has been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ("Ind AS") prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 read with the relevant rules issued thereunder. 2 The Financial Results were reviewed by the Audit Committee and taken on record at the meeting of the Board of Directors at their respective meetings held on Feb 14, 2023 and audit of these results has been carried out
- by the Statutory Auditors of the Company 3 The above is an extract of the detailed format of audited Standalone and Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly audited Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on the Company's website at www.jindalpoly.com.
- Jindal Poly Films Limited ("JPFL") and Jindal Films India Ltd. (JFIL) had executed a business transfer transaction with effect from August 2, 2022 wherein the Plastic Films Business undertaking of JPFL and JFIL was sold / transferred to the subsidiary company JPFL Films Private Limited on slump sale basis, accordingly, as agreed between the relevant parties, the consideration for the same was calculated on the basis of estimated provisional statements which is under the process of finalization between the relevant stakeholders. Pending finalisation of consideration, accounting has been made on provisional consideration basis. Any change in
- consideration shall be adjusted as and when finalized. 5 The Company has investment in Zero% Redeemable Preference Shares (Redemption premium 9% p.a.) and 1% Non-Cumulative Redeemable Preference Share (Redemption premium Minimum previous year
- inflation index plus 3% p.a. on cumulative basis) in some of the companies. As a consistent practice followed by the Company, fair valuation for these preference shares are made at the year end. On January 01, 2023, an incident of fire occurred in some of the manufacturing lines of the packaging business of one of the subsidiary M/s JPFL Films Pvt. Ltd. of the Company located at Mundhegaon Nasik,
- Maharashtra. This incident led to damage of certain property, plant and equipment, inventory and caused interruption in the business. The Company is adequately insured for reinstatement value of property, plant and equipment & inventories damaged due to fire and loss of profits due to business interruption. The Company has lodged a claim of this incident with the insurance company. This being the non-adjusting events, no effects

For and on behalf of the Board of Directors For Jindal Poly Films Limited

> VIJENDER KUMAR SINGHAL Whole time Director

Date: Feb 14, 2023

DIN: 09763670

New Delhi

Due to sale of plastic film business on slump sale basis to subsidiary with effect from August 2, 2022, the current quarter and nine months figures are not comparable with previous quarter, corresponding quarter and

on the above results have been given. corresponding nine months figures For Informed Technologies India Limited

Place: New Delhi

(DIN: 00270717)

0.86

0.86

दुनिया के 45 देशों में प्रमुखता से मैकेनिकल सील एवं संबंधित उत्पाद निर्यात करने वाली कंपनी है 'सीलमैटिक इंडिया लि.'

17 फरवरी को खुलकर 21 फरवरी,2023 को बंद होगा कंपनी का आईपीओ



बिजनेस रेमेडीज/जयपुर। मुम्बई आधारित सीलमैटिक इंडिया लिमिटेड देश की प्रमुख मैकेनिकल सील एवं . संबंधित उत्पाद निर्माण करने वाली कंपनी है। पिछले 10 वर्षों में कंपनी की



पॉजिष्टानिंग देख की टॉप सील मैकर के तौर पर स्थापित हुई है। सील निर्माण में कार्य करने वाली अन्य तीन कंपनिय मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। देश में मैकेनिकल सील का सालाग बाजार करीब २००० करोड रुपए का और विदेशों में 20 हजार करोड़ रुपये का है। इस रोगमेंट में कार्यरत प्रमुख कंपनी सीलमैटिक इंडिया लिमिटेड द्वारा बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर प्लांट एवं मशीनरी खरीदने, प्रोडक्ट डवलपर्मेट. मार्केटिंग एवं ऑफ्टर सेल सपोर्ट, सामान्य कॉपॉरेट खर्चों की पूर्ति, प्रोविजन्स एवं कंटीजेंसी और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आईपीओ लाया जा रहा है। बिजनेस रेमेडीज की टीम ने कंपनी प्रवर्तक उमर ए.के.बलवा से कंपनी की कारोबारी गतिविधियों के संबंध में

जानकारी हासिल की। कंपनी की कारोबारी गतिविधियांः सीलमैटिक इंडिया लिमिटेड का डनकॉर्पेरेशन वर्ष २००९ में हुआ था। कंपनी द्वारा मैकेनिकल सील्स व संबंधित उत्पादों की डिजाईनिंग, निर्माण

कंपनी के अनुभवी प्रवर्तक



कंपनी प्रर्वतक ५५ वर्षीय उमर ए.के.बलवा कंपर्न के संस्थापक सदस्य हैं। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री हासिल की है। उन्हें बर्गमैन, बलवा यप और सीलमैटिक में विभिन्न भमिकाए संभालने का 33 वर्षों का अनुभव है। मजबूत तकनीकी-वाणिज्यिक पृष्ठभूमि के साथ उन्होंने विविध विभागों जैस रोटरी उपकरण मूल्यांकन, अधिग्रहण उत्पाद दिजाइन पोटोटाइप व्यापक आपूर्ति प्रबंधन, परियोजना निषपादन व संचालन और रखरखाव के माध्यम से जीवनचक प्रबंधन

______ भेवाएं को संभाला है । वर्ष 2011 से, उन्हें सीलमैटिक इंडिया लि. में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

कंपनी प्रवर्तक 57 वर्षीय मोहम्मद हनिफ चौधरी कंपनी की संस्थापक सबस्य हैं। मैकेनिकल सील के डिजाइन, निर्माण और सर्विशिंग में उन्हें 33 से अधिक वर्षों का अनुभव है। उन्हें जर्मनी और जापान में सीलिंग तकनीक के विभिन्न जटिल पहलूओं जानने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। सीलिंग प्रौद्योगिकी की गतिशीलता को समझने का मिश्रण और बाजार के लिए मजबूत समाधान प्रदान करने के चलने वें यूरोप और यूएसए से भारत में शीलमैटिक के लिए विकास गतिविधियां संचालित करने में सक्षम रहे हैं। 2012 से वें शीलमैटिक इंडिया लिमिटेड में निदेशक हैं।

हॉस्पिटेलिटी इंडस्ट्री में कार्य करने का 10 वर्षों का अनुभव है।

एवं विश्व के 45 देशों में निर्यात किया जा रहा है। कंपनी द्वारा निर्मित यांत्रिक मील्स का उपयोग मरव्य रूप से लगढी और कागज, तेल और गैस, रिफाइनरी, पेटोकेमिकल, रसायन, उर्वरक, बिजली, खनन, एयरोस्पेस, समुद्री, दवा और अन्य उद्योगों में किया जाता है। कंपनी ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकृतित सील बनाती है। कंपनी के संचालन को न केवल भारत में बल्कि दिनया भर में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में कंपनी की भारत सहित 45 से अधिक देशों में उपस्थित है और इन देशों में यूएसए, स्वीडन, यूके, जर्मनी,

इटली. जापान, नॉर्वे. स्विटजरलैंड डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रोलिया, फ्रांस और कई अन्य देश शामिल हैं। सीलमैटिक इंडिया लिमिटेड की निर्माण डकाई शांति विद्या नगरी रोड. मीरा रोड (ई), थाणे में स्थित है और 3,855.86 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। कंपनी अपने परिचालन का वि करने के लिए एक और विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की योजना बना रही है। दसरी इकाई थाणे के खंडीपाडा गांव वसई पूर्व में स्थित होगी। कंपनी अपने उत्पादों की आपर्ति फार्मा तेल त उद्योगपतियों को करती है। कंपनी ने

600 Shares 2,499,600 shares of ₹10 (aggregating up to ₹56.24 Co 1,850,000 shares of ₹10 (aggregating up to ₹[] Co Book Built Issue IPO NEI (HNE) Sh Not less than 18% of the Net Issue कहा कि कंपनी की प्रतिधारण दर 100

फीसदी हैं। कंपनी के ग्राहकों में फोर्चन ५०० कंपनियां शामिल हैं। **कंपनी का वितीय प्रदर्शनः** वित्त वर्ष 2020 में कंपनी ने 33.58 करोड रुपये का राजस्व एवं ४.९४ करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ, वित्त वर्ष २०२१ में ३५.४८ करोड़ रुपए का राजस्व एवं 6.49 करोड़ रुपये का कर पश्चात शुद्ध लाभ, वित्त वर्ष 2022 में 42.76 करोड़ रुपये का राजस्व पर्व 8.41 करोड़ रुपए कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। वित्त वर्ष २०२३ की पहली छमाही में कंपनी ने 25.82 करोड रुपए का राजस्व एवं 5.43 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

कंपनी के आईपीओ के संबंध में **जानकारीः** कंपनी का आईपीओ बीएसई प्लेटफॉर्म पर 17 फरवरी,2023 को खुलकर 21 फरवरी,2023 को बंद होगा। कंपनी द्वारा १० रुपये फेसवेल्यु के २४९९६०० शेयर बुक बिल्ट इस्यू आईपीओ प्रणाली से २२० से २२५ रुपए प्रति शेयर के भाव से जारी क 56.24 करोड़ रुपए ज़ुटाए जा रहे हैं। फ्रेष्ट इश्यू के तहत 1850000 शेयरे की बिकी की जाएगी। जबकि कंपनी निवेशकों द्वारा ऑफर फोर सेल के माध्यम से ६४९६०० शेयरों की बिकी फीसदी शेयर क्यआईबी कैटेगरी निवेशकों, 18 फीसदी एनआईआई कैटेगरी निवेशकों और 42 फीसदी शेयर रिटेल गिवेशकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। आईपीओ के मार्केट मैकर सनप्लावर ब्रोकिंगऔर बुक रिनंग लीड मैनेजर आईएसके

एडवाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड हैं। नोटः कंपनी के आईपीओ में निवेश करने से पर्व निवेशकों को पंजीकृत निवेश सलाहकारों की सलाह लेनी चाहिए।

नायका का तीसरी तिमाही का मुनाफा 71 प्रतिशत घटकर ८.४८ करोड़ रुपये पर

एकीकृत लाभ चालू वित वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 70.75 प्रतिशत घटकर 8.48 करोड़ रुपये रहा। खुदरा . दुकानों में निवेश से कंपनी का मुनाफा प्रभावित हुआ है। कंपनी ने सोमवार को कहा कि इससे पिछले वित्त वर्ष की ु तीसरी तिमाही इसने 29 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया था।

हालांकि, कंपनी की परिचालन आय आलोच्य तिमाही में करीब 33 प्रतिष्ठत बढ़कर 1,462.82 करोड़ रुपये हो गयी। पिछले वर्ष दिसंबर तिमाही में यह १,०९८.३ करोड़ रुपये रही थी।नायका की कार्यकारी चेयरपर्सन, प्रबंध निदेशक एव मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) फाल्गुनी नायर ने कहा कि कंपनी कर पूर्व आय (एबिडा) मार्जिन में सुधार पर

सेल का लाभ तीसरी तिमाही में 65 प्रतिशत घटा

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात बनाने वाली कंपनी सेल का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित वर्ष (२०२२-२३) की तीसरी तिमाही में करीब ६५ प्रतिशत घटकर ५४२.१८ करोड़ रुपये रहा। खर्च बढ़ने से कंपनी का मुनाफा घटा है। कंपनी को इससे पिछले वित वर्ष की समान तिमाही में 1,528.54 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था।स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) ने सोमवार को शेयर बाजारों को बताया कि इस दौरान उसक . कल खर्च 23,209,88 करोड़ रुपये से बढ़कर 24,825,11 करोड़ रुपये हो गया।हालांकि, कंपनी की कल आय भी अालोच्य तिमाही में घटकर 25,140.16 करोड़ रुपये रही।

सिल्गो रिटेल लिमिटेड

CIN:L36911RJ2016PLC049036 पंजीकृत कार्यालयः बी-11, महालक्ष्मी नगर, जेएलएन मार्ग, जयपुर राजस्थान-302017

ई-मेल: info@silgo.in वेबसाइट: www.silgo.in 31 दिसम्बर,2022 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए अनांकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

	विवरण	समाप्त तिमाही	रामास तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त गौमाही	समाप्त गौमाही	समास वर्ष
ਰਂ.		(अगंकेषित)	(अनांकेक्षित)	(अगंकेक्षित)	(अगंकेक्षित)	(अगांकेक्षित)	(अंकेशित)
		31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022
1.	प्रचलनों से कुल आय	889.54	614.04	1031.94	2131.43	2385.44	3514.42
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)(कर,विशिष्ट	80.07	55.48	86.53	207.21	220.64	315.75
	एवं/अथवा असावारण मदों से पूर्व)						
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए चुद्ध लाभ/(हानि)	80.07	55.48	86.53	207.21	220.64	315.75
	(विशिष्ट एवं/अथवा अराधारण मदों के बाद)						
4.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	59.89	40.60	64.80	152.91	167.17	230.57
	(विशिष्ट एवं/अथवा अराधारण मदों के बाद)						
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आद्य (अवधि हेतु (कर	59.89	40.60	64.80	152.91	167.17	234.08
	के बाद) लाभ/हानि एवं अन्य व्यापक आय						
	(कर के बाद से शामिल)						
6.	प्रवृत्त इक्विटी शेवर पूंजी	1027.00	1027.00	1027.00	1027.00	1027.00	1027.00
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलनपत्र में दर्शाई गई	-	-	-	-	-	1812.62
	पुर्नमूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)						
8.	प्रति शेवर आय (रु.10/- प्रति का जारी तथा अवरूद्ध						
	परिचालनों हेतु) (वर्षिकीकृत नहीं)						
	1. मूल	0.58	0.40	0.63	1.49	1.63	2.28
	2. अवमिश्रित	0.58	0.40	0.63	1.49	1.63	2.28
feα	ाणीः क) उपरोक्त ३१ दिसंबर, २०२२ को समाप्त तिमाही ३	ौर नौमाही के लिए	अनाकेक्षित विलीय प	रिणामों के विस्तृत !	ग्रस्य का उद्धरण है,	जिसे सेबी (सूचीक	रण दवित्व और

सोनी मेडिकेयर लिमिटेड

CIN: L51397RJ1988PLC004569 ई-मेलः cs@sonihospitals.com वेबसाइटः www.soniho संपर्क नं. 0141-5163700, फैक्सः 0141-2564392

31 दिसम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही के अनुअंकेक्षित वित्तीय परिणाम

						(राष्ट्रा लाखों में)
विवरण		समाप्त तिमाही		समाप	1 गैमही	समात वर्ष
	31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022
	(अनअंकेक्षित)	(अगअंकेबित)	(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेषित)	(अनअंकेषात)	(अंकेक्षित)
परिचालमें से आय (शुद्ध)	747.37	781.53	459.85	2,197.30	1,689.93	2,260.02
अन्य परिचालन आय	18.81	15.89	11.67	46.59	24.91	66.75
लाभ और (हामि) असाधारण मदों और कर से पहले	8.46	12.50	(78.06)	27.59	(50.41)	(66.84)
बुद्ध लाभ/(हावि) कर पश्चात की अवधि के लिए	7.30	10.52	(71.06)	23.39	(50.41)	(60.65)
चुकता शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु.१०/- प्रति)	426.49	426.49	426.49	426.49	426.49	426.49
मूल एवं तनुकृत ईपीएस (वर्षिक नहीं) (रु.)						
मूल	0.17	0.25	(1.67)	0.55	(1.18)	(1.42)
तबुकृत	0.17	0.25	(1.67)	0.55	(1.18)	(1.42)
	परियानमें से जब (दुइ) जब परियानमें जर कर हो जा है। जब परियानमें जा कर हो पाले दुइ ला/(इति) कर परमार को जबी के लिए पुस्ता सेक पूर्व प्रीक्त सुख्य र रा// प्रीति) मुख्य पर पालुका ईपीएस (वर्षिक सही (र.) मूर्ग	31.12.2022 (ज्याव्येवीक्षण) परित्मालमें से आग (हुन्न) 77.7.37 आग परित्मालमां से आग (हुन्न) 77.7.37 आग परित्मालमां आग 18.81 18.81 8.46 8ुन्न राम/(हासे) अप प्रत्मावर मार्गे और यह से प्राप्ते 8ुन्न राम/(हासे) अप प्रत्मावर मार्गे और यह से प्राप्ते 9ुन्न राम/(हासे) अप प्रत्मावर मार्गे और यह से प्राप्ते 9ुन्न राम/(हासे) अप प्रत्मावर मेरी अवधी के शिल् 7.30 9ुन्नवा सेव्य पूर्वी (जीविका मूर्ण २.10/- प्रीते) 428.49 मूर्ग पर्त महुन्न ईपीएस (वर्षिक मार्गे) (ए.)	31.12.2022 30.09.2022 (अवस्थितिक) (31.12.2022 30.09.2022 31.12.2021 (রাম্বর্জনিয়ান (রাম্বর্জনিয়ান রাম্বর্জনিয়ান (রাম্বর্জনিয়ান রাম্বর্জনিয়ান (রাম্বর্জনিয়ান রাম্বর্জনিয়ান (রাম্বর্জনিয়ান রাম্বর্জনিয়ান রাম্বর্জনিয	3112,2022 30,08,2022 3112,2021 3112,2022 (जायजीवीशा) (जायजीवाशा) (जायजावाशा) (31,12,2022 30,08,2002 31,12,2021 31,12,2022 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 31,12,2021 3

२. उपरोबत सेबी (सचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विभिन्न, २०१५ के विभिन्न ३३ के तहत स्टॉक एक्सचेंज में बर्ज किए गए तिमाही अग्रजंकेबित वितीय परिणामों के विस्ता

DIN: 00716246

JARIA

पंजीकत कार्यालय : एसपी-1-2316, रीको इंडस्ट्रीयल एरिया, रामचन्द्रपुरा, सीतापुरा विस्तार, जयपुर-302022, CIN: L25209RJ2006PLC022828 टेलिफेक्स : 0141-2333722, ईमेल: investors@tijaira-pipes.com (रुपये लाखों में बिंदु 7 को छोड़कर)

31 दिसम्बर, 2022 को समाप्त गैरअंकेक्षित एकल तिमाही और नौमाही वित्तीय परिणामों का सार

विवरण	तिमाही समाप्त			नौमार्ह	वर्षिक समाप्त	
		गैरअंकेक्षित		गैरअंदे	अंकेक्षित	
	31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022
परिचालनों से कुल आय व अन्य	2.89	12.46	1774.05	1013.33	4143.16	5510.41
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि), (कर, असाधारण और या	(110.91)	(117.40)	(505.40)	(664.60)	(1418.55)	(2171.69)
असाधारण वस्तुओं से पहले)						
अवधि के लिए कर से पहले शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और	(110.91)	(117.45)	(505.40)	(665.65)	(1418.67)	(2171.81)
या असाधारण वस्तुओं के बाद)						
अवधि के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और या	(110.91)	(117.45)	(505.40)	(665.65))	(1418.67)	(2171.81)
असाधारण वस्तुओं के बाद)						
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर पश्चात)	(110.91)	(117.45)	(505.40)	(665.65)	(1418.67)	(2171.81)
समावेशित लाभ/(हानि) और अन्य समावेशित आय (कर पश्चात)						
समता अंश पूंजी (रु.10/- प्रति का अंकित मूल्य)	2862.66	2862.66	2862.66	2862.66	2862.66	2862.66
आय प्रति शेयर (रु. १०/- प्रति का ऑकत मूल्य)(वार्षिक नहीं)						
मूल	(0.39)	(0.41)	(1.77)	(2.33)	(4.96)	(7.58)
तबुकृत	(0.39)	(0.41)	(1.77)	(2.33)	(4.96)	(7.58)

- १ तेम्बाप्रीक्षा समिति वारा उपरोक्त विनीय परिपासों की समीक्षा और निफारिश की गई है और 14 02 2023को आयोजित बैठिक में विवेशक मंदल वारा अवसंधित किया गया है।
- 2. जहां आवश्यक समझा जाता है, वहां पिछली अविध के आंकड़ों को फिर से इकहा / पुनर्व्यवस्थित किया गया है। आयकर स्थगित कर के लिए प्रावधान यदि कोई होए तो वर्ष के अंत / तिमाही चार पर मान्यता प्राप्त होगी।

...

4. ऑपरेटिंग सेगमेंटः कंपनी मुख्य रूप से वो खंडों यानी पाइप्स और टेक्सटाइल्स में काम करती है। प्रत्येक ऑपरेटिंग सेगमेंट के उत्पावों पर विचार किया जाता है 1) पाइप में एचडीपीई, पीवीसी पाइप, सिंचाई प्रणाली शामिल हैं, 2) टेक्सटाइल में मिक ब्लैंकेट, मास्क शामिल हैं। निवेशकों की ओर से और के लिये

स्थानः जयपुर विनांकः 14.02.2023 आलोक जैन तिजारिय (पहांध निवेशक) (DIN: 00114937)

ओमेक्स लिमिटेड का शुद्ध घाटा दिसंबर तिमाही में बढकर १०९.११ करोड़ रुपये पर पहंचा

बिजनेस रेमेडीज/नई

दिल्ली। रियल्टी कंपनी ओमेक्स लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध घाटा चालू वित्त वर्ष 2022-23 की दिसंबर तिमाही बढ़कर 109.11 करोड़ रुपये पहुंच गया। कंपनी को पिछले वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 38.56 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। कांप्रती ते शेरार बाजारों को बताया कि उसकी कल आय आलोच्य तिमाही में 184.26 करोड़ रुपये से बढ़कर 253.81 करोड़ रुपये हो गई। वहीं कंपनी का चाल वित्त वर्ष के पहले *बौ महीवों यावी अपैल* दिसंबर, २०२२ में शुद्ध घाटा बढकर २४६.६९ करोद रुपरो हो गरा। एक साल पहले इसी अवधि में यह 124.99

करोड रुपये था। जी एंटरटेनमेंट का मुनाफा तीसरी तिमाही में 91.8 प्रतिशत घटा

बिजनेस रेमेडीज/नर्ड **दिल्ली**।जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अक्ट_बर-दिसंबर तिमाही में 91.86 प्रतिशत घटकर 24.32 करोड़ रुपये रह गया। उच्च लागत और इसके ओटीटी (ओवर द टॉप) मंच में निवेश की वजह से इसका मुनाफा प्रभावित हुआ है।

शंकर लाल रामपाल डाई-केम लिमिटेड 31 दिसम्बर,2022 को समाप्त तिमाही और नौमाही के अनअंकेक्षित वितीय परिणामों का सार

1	英. 9	वेबरण		रामात तिमाही		समह	गौसही	रुसान गत वित वर्ष
	ਰ		31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022
	1.	प्रचलने से कुल आव	7765.26	7499.67	10912.98	23613.92	21938.05	30332.59
	2	अवीर के निए हुद्ध लाम / (हमि)(कर,अतामान्य तथा अताधारण मर्ची ते पूर्व)	161.07	717.48	1684.23	1705.26	2741.14	3580.25
5	3.	अवधि के लिए हुद्ध लाभ / (हरिन) करों से पूर्व (असामान्य तथा /या असाधरण मर्दो के परवात)	161.07	717.48	1684.23	1705.26	2741.14	3580.25
9+	4.	अविध के लिए हुद्ध लाभ / (हमि) (करों ने परपात) असमान्य तथा /या असावरण मच्चे के परपात)	120.61	536.91	1277.08	1484.22	2029.64	2706.44
11	5.	अवीर के लिए कुल व्यापक आलवनी (अवीर के लिए (कर परचात) सुनायर/(हानि) तथा	120.61	536.91	1277.08	1484.22	2029.64	2706.44
ज		अन्य व्यापक अल्पनी (कर परचात)						
/	6.	पेडअप इविवरी हेवर पूंजी	6396.68	6396.68	2132.23	6396.68	2132.23	2132.23
T	7.	पुनर्शुप्यांकन रिजर्व को छोड़कर रिजर्व जैसा कि नत वर्ष की बैलेंस	-					5545.11
	_	हीट में वृष्टीय मय						
-	8.	प्रति शेवर अर्जन (वर्षिक नहीं) (प्रत्येक रु १०/-)						
Pr		असाधारण वस्तुओं से पहले और असाधारण वस्तुओं के बाव	0.19	0.84	5.99	2.32	9.52	4.23
21		(सूत एवं तजुक्त)						
1		(मूल एवं तमुकूत समयोजित)						
	Serre							•

बोहरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L24117RJ1996PL.C012912 पंजीकृत कार्याल्यः 301, आनंब पन्ता, युनेकरिटी रोड, उत्पर्धत्, राजस्थान 313001 ईमेल आईडी: bil@bohraindustries.com.बुरमात्र नं: +91-294-2429513, फॅक्ट- +91-294-2429515 31 दिसम्बर,2022 को समाप्त तिमाही अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का ब्यौरा

खपत समग्री की लागत स्टॉक-इन-ट्रेड खरीद तैवार मान के स्टॉक में परिव तैवार माल के स्टॉक में परिवर्त स्टॉक इन-ट्रेड और कार्य-प्रगति कर्मचारी लाम व्यय मार्च्यहर और परिशोधन व्यय उत्पद्ध झुन्क अन्य व्यय 0.05 31.75 31.74 35.84 107.52 140.85 अवस्थाय वस्तुर्थ । अद्य कर है प अवस्थाय वस्तुर्थ । इस वर्षि कस्तार(हिंग) (5-6) इस वर्षि कस्तार(हिंग) (5-6) इस वर्षिण (5-6) अवस्था के लिए (7-6) अव्य वस्त्राप्ट अवश (क) है वस्तुर्थ हिंग्ल रामा वा हानि के लिए पुक्तीविक्त गरी विका अवस्था (व) इस महे वे देवीला अवस्था हिंग्ल स्त्री विका अस्था वा (हिंग्ल) के लिए पुक्तीविक्त गरी विका वस्त्रा आधी के लिए पुक्तीविक्त गरी विका सम्त्रा (84.68) (50.77) (86.30) (219.83) (222.97) (278.04) पेडअप इक्विटी शेयर पूजी (अकित मृत्य 10) रिजर्व (पिछले वर्ष की बैलेंग्र शीट में दर्शाए अ

पणीः उपरोक्तः 31.12.2022 को समाप्त रिमाही के लिए तिमाही वितीय परिणामों के विरत्तृत प्रारूप का उद्धरण है, जो सेबी (सूचीकरण बा क्वम ५३ के तहत स्टॉक एक्सपोंजों के साथ दावर किया गया है। पूर्वीक्तः अन्तर्शक्तित वितीय परिणामों का पूर्व प्ररूप एनएराई के स्टॉक ए

...